



Day and Date	<u>Concept/Topic/Activity</u>
Thursday 03.10.24	<p style="text-align: center;">English</p> <p>Chapter We are all Indians</p> <p>Reading of pages 91-93 of Mridang textbook.</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><u>Hindi</u></p> <p>रिा (काम का होना / करना)</p> <p>प्रश्न) निम्नलिखित वाक्यों में रिा शब्द रेखांकित करें-</p> <p>क) बंदर <u>कूद रहे हैं</u> ।</p> <p>ख) सोहन पुस्तक <u>पढ़ रहा है</u> ।</p> <p>ग) मा<u>खाना पका रही है</u> ।</p> <p>घ) गीता गाना <u>गा रही है</u> ।</p> <p>ड) राम पत्र <u>लिख रहा है</u> ।</p> <p>Practice Assignment: मंथन पुस्तिका की पृष्ठ संख्या 25 पूरा करें ।</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><u>General Awareness</u></p> <p style="text-align: center;">Food We Eat</p> <p>Q. Write two example each of:</p> <p>1. Body building food _____, _____</p> <p>2. Protective food _____, _____</p> <p>3. Energy giving food _____, _____</p> <p>4. Non vegetarian food _____, _____</p> <p>Practice Assignment - Draw / paste 2 pictures each of body building food , protective food , energy giving food</p>